

## कृषि विज्ञान केंद्र, बरेली द्वारा कृषि शिक्षा दिवस का आयोजन

आज दिनांक 3-12-2021 को कृषि विज्ञान केंद्र-आई. वी. आर. आई, इज़तनगर, बरेली द्वारा कृषि शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य पर चौधरी हरनाम सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज, भुता, बरेली में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम डॉ॰ बी पी सिंह, प्रभारी, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विद्यार्थियों को आज के दिवस के बारे में विस्तार से बताया कि डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत रत्न के जन्मदिन को स्मरण करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रति वर्ष देश भर में 3 दिसंबर को पूरे जोश और उत्साह के साथ कृषि शिक्षा दिवस मनाता है। डॉ॰ बी पी सिंह ने आगे यह भी बताया कि विद्यार्थी किस प्रकार अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए किस प्रकार उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। डॉ॰ रंजना गुप्ता द्वारा विद्यार्थियों को फल एवं सब्जियों के संरक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई, उन्होंने यह भी अवगत कराया कि किस प्रकार से हम अपने घर में उपलब्ध फल एवं सब्जियों का संरक्षण अचार या मुरब्बा बनाकर भी कर सकते हैं तथा किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए विभिन्न उद्योग में कार्य करने की अपार संभावनाएं उपलब्ध है। कार्यक्रम में आगे डॉ॰ शार्दूल द्वारा विद्यार्थियों को कृषि से संबंधित समस्याओं एवं उनके निदान तथा पशुओं में टीकाकरण से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आगे श्री मनीष तोमर विषय वस्तु विशेषज्ञ द्वारा विद्यार्थियों को कृषि एवं संबंधित उद्यमों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को समझ उनको उचित सुझाव दिए। चौधरी हरनाम सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज, भुता बिथरिचेनपुर के निदेशक (कृषि) डॉ॰ हरपाल सिंह शर्मा ने कृषि शिक्षा दिवस की विस्तृत जानकारी के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी, डॉ॰ बी पी सिंह, को कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया तथा विद्यार्थियों विद्यार्थियों से साझा की तथा धन्यवाद प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में 158 छात्र एवं छात्राओं ने अपनी प्रतिभागीता दर्ज कराई।

